

[अ.नि. - अध्ययन निष्पत्ति (Learning Outcome)]

अ.नि. 'कौन' कारक के रूपों वाले प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप से देते हैं।

प्रश्न-1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

[05]

1. 'सबका जीवन भी बन जाये मधुबन' का भावार्थ क्या है?
2. पत्र में पता किस ओर लिखा जाता है?
3. आपको चुटकुले क्यों पसंद हैं?
4. किन उपकरणों के माध्यम से संदेशाव्यवहार हो सकता है?
5. किताबें हमें क्या-क्या देती हैं?

अ.नि. चित्र के आधार पर ८-१० वाक्य लिखते हैं।

प्रश्न-2 नीचे दिए गए चित्र के आधार पर 10 वाक्य लिखिए।

[05]



प्रज्ञाचक्षु विद्यार्थी के लिये : आपकी मनपसंद प्रवृत्ति के बारे 8 से 10 वाक्य लिखिए।

अ.नि. घटना का वर्णन करते हैं।

प्रश्न-3 कोविड-19 (कोरोना) की घटना के बारे में 10 वाक्य लिखिए।

[05]

अ.नि. संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को समझकर वाक्य में प्रयोग करते हैं।

प्रश्न-4 सूचनानुसार कीजिए।

(अ) संज्ञा पहचानकर उसके आधार पर दूसरा वाक्य बनाइए।

[03]

1. मनसुख लिखता है।
2. कोयल गाती है।
3. कर्ण की उदारता जग प्रसिद्ध है।

(ब) विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए।

[02]

- (1) लाल
- (2) तीसरा

अ.नि. लिंग भेद को समझकर वाक्य में प्रयोग करते हैं।

प्रश्न-5 लिंग परिवर्तन करके उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए।

[05]

उदा. : हिरन - हिरनी : वाक्य: हिरनी दौड़ रही है।

- (1) देव
- (2) ग्वाला
- (3) शेर
- (4) स्त्री
- (5) राजा

## सामयिक मूल्यांकन कसौटी

कक्षा : 6

हिन्दी

सप्टेम्बर, 2020

समय : 1 घंटा

अंक : 25

(अ.नि. : अध्ययन निष्पत्ति- Learning Outcome)

अ.नि. : परिच्छेद को पढ़कर समझते हैं।

प्रश्न-1 परिच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

(05)

अक्षरों की खोज के साथ एक नये युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचारों और हिसाब-किताब को लिखकर रखने लगा, तब से मानव को 'सभ्य' कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से 'इतिहास' आरंभ हुआ। किसी भी जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है, जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लगते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से छः हजार साल हुए हैं।


प्रश्न :

- (1) मानव इतिहास का आरंभ कब से माना जाता है ?
- (2) परिच्छेद पढ़कर 'असभ्य' शब्द का विलोम शब्द ढूँढिए।
- (3) 'आरंभ होना' मुहावरे का अर्थ लिखिए।
- (4) मनुष्य अपने विचारों को किस प्रकार रखने लगा ?
- (5) परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए।

अ.नि. : चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखते हैं।

प्रश्न-2 नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8 से 10 वाक्य लिखिए।

(05)



प्रश्न - 2 (प्रज्ञाचक्षु विद्यार्थी के लिये)

गाँव के वातावरण का 8 से 10 वाक्यों में वर्णन कीजिए ।

अ.नि. : शब्दकोश का उपयोग करते हैं ।

प्रश्न-3 सूचना अनुसार उत्तर लिखिए

(1) शब्दकोश क्रम के मुताबिक प्रथम स्थान में आनेवाला शब्द ढूँढिए। (01)

कक्षा , अजगर , मंदिर, मनुष्य

(2) शब्दकोश क्रम में लिखिए । (04)

(A) क्षमा, ज्ञानी, कागजात, गमला, अंबर, आँगन, कक्षा, मनुष्य

(B) भारती, कक्षा, मनोहर, रामायण, धन, जगत , अजगर , मंदिर

अ.नि. : शब्दों और अंकों में 51 से 100 तक की गिनती का उच्चारण एवं लेखन करते हैं।

प्रश्न-4 निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए। (05)

(1) ५१ (2) ६९ (3) ७५ (4) ८९ (5) ९९

अ.नि. : शब्द पर से वाक्य बना सकते हैं ।

प्रश्न-5 निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए । (05)

(1) उजाला (2) दीपक (3) सूरज (4) प्रकृति (5) मुस्कुराहट

.....

# सामयिक मूल्यांकन कसौटी

कक्षा : 6

हिन्दी

दिनांक : 04/03/2022

समय : 1 घंटा

अंक : 25

प्रश्न-1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो-तीन वाक्यों में लिखिए ।

(5)

- (1) हमारा मन पावन कैसे बनेगा ?
- (2) नेपोलियन कैसा इन्सान था ?
- (3) 'सच्चा दान' प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है?
- (4) पत्र में पता एवं संबोधन किस ओर लिखा जाता है ?
- (5) हम दुनिया में यश कैसे प्राप्त कर सकते हैं ?

प्रश्न-2 उदाहरण के अनुसार क्रियाओं का वाक्य में प्रयोग कीजिए ।

(5)

उदाहरण: पढ़ना - बच्ची किताब पढ़ती है ।

- (1) खेलना (2) हँसना (3) पीना (4) चलना (5) खाना

प्रश्न-3 परिच्छेद में से किन्हीं पाँच मुहावरे ढूँढ़कर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए ।

(5)

रमेश पढ़ाई में होशियार लड़का है, इसीलिए रमेश पिताजी की आँखों का तारा है । इस साल रमेश ने कमर कसके परीक्षा की तैयारी की थी । जब वह परीक्षा देने गया तो उसका ईद का चाँद मित्र महेश का नंबर उसके नजदीक था । महेश अध्यापक की नजर चुरा के रमेश की कॉपी में से नक़ल कर रहा था । उस वक्त अध्यापक ने देखा और वे आग बबूला हो गये।

प्रश्न-4 चित्र के आधार पर 10 वाक्य लिखिए ।

(5)



प्रश्न-5 कोरोना काल में आपने घर पर रहकर पढ़ाई कैसे की इसका वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए ।

(5)

## शिक्षक के लिए :

| प्रश्न क्रमांक | अ. नि. क्रमांक | विधान                                                           |
|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1              | H613.2         | कौन कारक के रूपोंवाले प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप से देते हैं । |
| 2              | H630           | क्रिया को समझकर वाक्य में प्रयोग करते हैं ।                     |
| 3              | H625           | मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करते हैं ।               |
| 4              | H621.02        | चित्र के आधार पर 8 से 10 वाक्य लिखते हैं ।                      |
| 5              | H614           | परिस्थिति अनुसार सरल भाषा में चिट्ठी लिखते हैं ।                |

# सामयिक मूल्यांकन कसौटी

कक्षा : 6

हिन्दी

सितम्बर, 2021

समय : 1 घंटा

अंक : 25

H613.02: 'कौन' कारक के रूपों वाले प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप से देते हैं।

प्रश्न : 1 प्रश्नों के उत्तर लिखिए।


(05)

- (1) हमें पशुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ?
- (2) हमारे जीवन को 'सुख-दुःख की कहानी' क्यों कहा गया है ?
- (3) नन्ही की जगह आप होते तो बिच्छू से कैसा बर्ताव करते?
- (4) नन्ही और बिच्छू की कहानी से आपने क्या सीखा ?
- (5) 'दयालु शिकारी' कहानी से क्या सीख मिलती है ?

H610: चित्र के आधार पर कहानी का लेखन करते हैं।

प्रश्न : 2 निम्नलिखित चित्र के आधार पर कहानी लिखिए।

(05)



H617.02: शब्दों और अंकों में 51 से 100 तक की गिनती का लेखन कर सकते हैं ।

प्रश्न : 3 निम्नलिखित अंकों को शब्दों में लिखिए ।

(05)

- (1) ५५ (2) ७० (3) ६६ (4) ८९ (5) ९९

H615: विरामचिह्नों का योग्य स्थान पर प्रयोग करते हैं ।

प्रश्न : 4 निम्नलिखित वाक्यों को योग्य विरामचिह्न लगाकर फिर-से लिखिए ।

(05)

- (1) तुम क्या करते हो  
(2) अरे क्या हो गया  
(3) माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है  
(4) भैया मुझे जाने दीजिए  
(5) सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है

H6.06: छपी हुई सामग्री पढ़कर समझते हैं ।

प्रश्न : 5 निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए ।

(05)

योग एक कला है, जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ता है और हमें मजबूत और शांतिपूर्ण बनाता है । योग आवश्यक है, क्योंकि यह हमें फिट रखता है, तनाव को कम करने में मदद करता है और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है । मनुष्य का स्वस्थ मन ही अच्छी तरह से ध्यान केन्द्रित करने में सहायता कर सकता है । हम योग का अभ्यास करके आंतरिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं । जाहिर है कि एक स्वस्थ व्यक्ति एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में अधिक काम कर सकता है । नियमित योग अभ्यास करने से हमारा शरीर सक्रिय रहता है, आलसीपन दूर होता है, शरीर में रक्त प्रभाव बढ़ता है, ध्यान केन्द्रित करने की शक्ति बढ़ती है और मन प्रफुल्लित रहता है ।

प्रश्न :

- (1) शरीर, मन और आत्मा को एक साथ कौन जोड़ता है ?  
(2) नियमित योग अभ्यास करने से क्या फायदा होता है ?  
(3) परिच्छेद में 'सहायता' शब्द का समानार्थी शब्द कौन-सा है ?  
(4) परिच्छेद में से 'आलसी' शब्द का विलोम शब्द ढूँढिए ।  
(5) इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए ।

.....